

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुस्तक में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक रुपये है यह मापी द्वारा श्री अधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग सहायक अधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अवर प्रभाल..... ५६१८ को निर्गत किया जाता है।

18/06/21
कार्यालय अधिकारी
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रभाल, सध्यनी
कार्य प्रभाल, सध्यनी
18/06/21

Sch. XLV - Form No. 134

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2590

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				CH: + 305y.	
NIR:	p	MGsy	Mohan Bodhiyam to		
			Bajju to la	Mohan Bodhiyam	
				four year - 2021.	
Agency 2:-	Departmental				
Authority:-	E.E. Rain work division (Madhubani)				
Order Ref no:-					
N/W ①	per. & laying Recipe				
	NPS for form ①.				

2 Nos	2.00	2.50	= 10.00	
CHs	2863.91/m	— Rs	28639.10	
②	per. & filling the brick- bats including the cost of bricks-bads & labour all complete job as per specification & direction of a/c.			
IN 10x 6.50d	$(1.25+1.50)$ $2 \times 0.50 = 4.43 m^2$			
IN 10x 2.00d	$(1.0+1.0)$ $2 \times 2 = 9.045 m^2$			
IN 10x 15.00d	$(0.40+0.90)$ $2 \times 0.50 = 11.79 m^2$			
IN 10x 8.25d	$(0.8+1.20)$ $2 \times 0.85 = 7.01 m^2$			
IN 10x 4.60d	$2.25d$ $0.910 = 1.38 m^2$			
IN 10x 4.00d	$(0.20+0.60)$ $2 \times 0.50 = 0.90 m^2$			
			126.0 m ²	

Continuation

e - o

B. f by 28639.10

2

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					126.0 m^3
					$(0.30 + 0.60) \times 2 \times 0.350 = 1.10 \text{ m}^3$
					$(1.50 + 0.90) \times 2 \times 0.50 = 1.20 \text{ m}^3$
					$(0.70 + 1.50) \times 2 \times 0.350 = 1.050 \text{ m}^3$
					129.08 m^3
loss for pipe.					$2 \times 3.1416 \times 0.5^2 \times 5.0 \text{ ft} = 17.67 \text{ m}^3$
					111.41 m^3
	Rs	2004.96/m ³			<u>223372.59</u>
	A d d 129.08 + (+) Rs				<u>80241.40</u>
	A d d 17.67 (+) Rs				<u>2520.12</u>
	A d d S. F. e v (+) Rs				<u>11497.51</u>
					<u>Rs 296270.72</u>
					Say Rs 296271 = ~

Q.S.P	8/12/2021	M
for		8/12/2021
7/1/2021		8/12/2021